



कोविड-19 महामारी के दौरान ब्रैम्पटन में कैंनेडा डे 2020

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (25 जून, 2020) – इस वर्ष, कैंनेडा डे (Canada Day), बुधवार, 1 जुलाई को है।

पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) की सलाह से और हमारे निवासियों व कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, कोविड-19 (COVID-19) को फैलने से रोकने में मदद के लिए, सिटी हॉल (City Hall) और रेक्रिएशन एंड कम्युनिटी सेंटर (Recreation and Community Centres) और ब्रैम्पटन लाइब्रेरी (Brampton Library) ब्रांचों सहित, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की सभी फैसिलिटीज, अगले नोटिस तक बंद रहेंगी।

फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Fire and Emergency Services), ट्रैफिक सर्विसिज (Traffic Services), बाइ-लॉ एन्फोर्समेंट (By-Law Enforcement), रोड ऑपरेशंस (Road Operations) और सिक्योरिटी सर्विसिज (Security Services) सहित, सभी महत्वपूर्ण सेवाएं, हमारे समुदाय के सहयोग के लिए पहले की तरह ही जारी रहेंगी।

किसी भी सवालों के लिए निवासी, 311 पर या 905.874.2000 (ब्रैम्पटन के बाहर से) पर फोन कर सकते हैं, ब्रैम्पटन 311 (Brampton 311) ऐप (जो ऐप स्टोर (App Store) या Google Play (गूगल प्ले) पर उपलब्ध है) का उपयोग कर सकते हैं, www.311brampton.ca पर जा सकते हैं या 311@brampton.ca पर ईमेल कर सकते हैं। हम सिटी ऑफ ब्रैम्पटन या रीजन ऑफ पील (Region of Peel) के किसी भी मुद्दों के लिए, 24/7 उपलब्ध हैं। इन मुद्दों में शामिल हैं, कोविड-19 से संबंधित सवाल, जैसे पार्कों में सुरक्षा उपाय, शारीरिक दूरी व फैसिलिटीज के बंद होने के बारे में सवाल। अधिक जानकारी के लिए www.brampton.ca/covid19 पर जाएं।

कैंनेडा डे का जश्न – ऑनलाइन मनाएं!

अपने घरों में ही कैंनेडा डे का जश्न मनाने में, ब्रैम्पटन के निवासियों की मदद करने के लिए, सिटी www.brampton.ca/canadaday पर ऑनलाइन जश्न मना रही है। 1 जुलाई को दोपहर से लेकर रात 10 बजे तक, निवासी परिवार-अनुकूलित गतिविधियों, पटाखों के आभासी (वर्चुअल) डिस्प्ले, लोकल कलाकारों और जूनो (JUNO) अवॉर्ड-विजेता मुख्य प्रदर्शक, वॉक ऑफ द अर्थ (Walk Off The Earth) के प्रदर्शनों का आनंद ले सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca/canadaday पर जाएं।

पटाखों से सुरक्षा

कैंनेडा डे, साल में उन चार छुट्टियों में से एक है, जब निजी प्रॉपर्टी पर, सिटी से अनुमति लिए बिना, छोटी-रेंज के पटाखों की अनुमति होती है। बाइ-लॉ के अंतर्गत, विक्टोरिया डे (Victoria Day), दीवाली (Diwali) और नए साल से पहले की शाम (New Year's Eve) को भी पटाखे चलाने की अनुमति होती है।



छोटी-रेंज के पटाखे ऐसे पटाखे हैं, जो चलाए जाने पर 3 मीटर (10 फुट) से कम दूरी तक जाते हैं (उदाहरण के लिए, अनार, चक्कर, ज़मीनी चक्कर, फुलझड़ियां)। अन्य सभी रॉकेट किस्म में पटाखों पर ब्रैम्पटन में पाबंदी है। सिटी निवासियों को याद दिलाती है कि पटाखों को गली में, पगडंडियों पर, सिटी के पार्कों के अंदर या म्युनिसिपल या स्कूल की प्रॉपर्टीज पर चलाने की अनुमति नहीं है।

निजी प्रॉपर्टी पर छोटी-रेंज के पटाखे चलाते समय, निवासियों के लिए इन सुरक्षा सावधानियों का पालन करना आवश्यक है:

- अपने पास पानी का कंटेनर या पानी से भरी कोई होज़ लाइन रखें, जो पटाखे बुझाने के लिए उपलब्ध हो।
- फुलझड़ियों के अलावा, कभी भी पटाखों को अपने हाथों में पकड़कर न चलाएं या जलते हुए पटाखों को हाथ में न पकड़ें।
- कभी भी पटाखों को अन्य लोगों पर न फेंकें या उनकी तरफ करके न चलाएं।
- फुलझड़ियां चलाने के बाद, उनका निपटारा करने से पहले, पूरी तरह से ठंडा होने के लिए उन्हें पानी के कंटेनर में डाल दें।
- सभी पटाखों का निपटारा करने से पहले, उन्हें पूरी तरह से ठंडा होने दें।

पालतू जानवर, पटाखों के प्रति संवेदनशील होते हैं। हर किसी को याद दिलाया जाता है कि यदि उनके पड़ोस में पटाखे चल रहे हों, तो वे अपने पालतू जानवरों को सुरक्षित रखें। ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज (Brampton Animal Services), निवासियों को सलाह देता है कि वे शाम होने से पहले ही अपने कुत्ते को बाहर मल त्याग के लिए लेकर जाएं, क्योंकि वे शाम को पटाखों से डर सकते हैं और सुनिश्चित करें कि रात को उनका पालतू जानवर घर के अंदर है या सुरक्षित है।

हर साल, पटाखा विक्रेताओं के लिए, पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस धारक होने के लिए सिटी से ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। इस साल, किसी ट्रेनिंग का आयोजन नहीं किया गया और कोई लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं। यदि निवासी देखें कि ब्रैम्पटन में स्टोर्स पर या कहीं और पटाखे बेचे जा रहे हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वे, सर्विस ब्रैम्पटन (Service Brampton) को ब्रैम्पटन 311 (Brampton 311) मोबाइल ऐप द्वारा, [ऑनलाइन](http://www.brampton.ca/311) या 311 पर फोन करके इसकी रिपोर्ट करें। निवासियों को तब भी सर्विस ब्रैम्पटन को संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है, यदि वे पाबंदी वाले पटाखों का उपयोग करने के बारे में, या कोविड-19 के कारण दस से अधिक लोगों के सार्वजनिक एकत्रीकरण के बारे में चिंतित हों।

कोविड-19 के दौरान, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी निर्देशों के बारे में जानकारी के लिए, www.peelregion.ca/coronavirus पर जाएं।

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit), कैंनेडा डे को रविवार/छुट्टी के दिन वाले शेड्यूल पर काम करेगा।



टर्मिनल्स पर ग्राहक सेवा (Customer Service) काउंटर बंद हैं। ब्रामली (Bramalea), ब्रैम्पटन गेटवे (Brampton Gateway) और डाउनटाउन (Downtown) टर्मिनल्स में टर्मिनल की बिल्डिंग का समय, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक है। संपर्क केंद्र (Contact Centre) खुला है। सवारियां सहायता के लिए, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, 905.874.2999 पर फोन कर सकती हैं।

अधिक बार सफाई और रोगाणु मुक्त करने का शेड्यूल पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। इस समय बसों को हर 24 घंटों में रोगाणु मुक्त किया जा रहा है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जा रहा है और रोगाणु मुक्त किया जा रहा है। सवारियों को सलाह दी जाती है कि वे सफर करते समय हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें और बार-बार अपने हाथ धोएं।

वीरवार, 2 जुलाई से शुरू करते हुए, किराए की अदायगी और आगे के दरवाजे से चढ़ने (फ्रंट डोर बोर्डिंग) को दुबारा बहाल किया जाएगा। कोविड-19 को फैलने से रोकने में मदद के लिए, पील पब्लिक हेल्थ और ओनटैरियो सरकार (Government of Ontario) की, पब्लिक ट्रांज़िट पर मास्क पहनने की पुरज़ोर सलाह का पालन करते हुए, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की सवारियों और ऑपरेटर्स के लिए, 2 जुलाई से बसों पर और टर्मिनल्स पर, गैर-मेडिकल मास्क पहनना जरूरी होगा।

रूट और शेड्यूल के बारे में जानकारी के लिए, 905.874.2999 पर फोन करें या www.bramptontransit.com पर जाएं। रियल-टाइम में अगली बस के बारे में जानकारी के लिए, अपने स्मार्टफोन से या किसी अन्य मोबाइल डिवाइस से nextride.brampton.ca पर जाएं। ट्रिप प्लानिंग के अन्य टूल्स के लिए, www.triplinx.ca पर या Google Maps (गूगल मैप्स) पर जाएं।

पार्क्स और रेक्रिएशन

खुले हुए और बंद, पार्क और रेक्रिएशन संबंधी सुविधाओं की सूची के लिए, [यहां क्लिक करें \(click here\)](#)।

रेक एट होम (Rec At Home) के साथ, पूरे शरीर की एक्सरसाइज करते हुए स्वस्थ रहें, सीखें कि ओरिगैमी हार्ट कैसे बनाते हैं, अपने सुंदर लिखावट (कैलिग्राफी) कौशल का अभ्यास करें। यह ब्रैम्पटन रेक्रिएशन (Brampton Recreation) के स्टाफ द्वारा प्यार से तैयार की गई, कई प्रकार की आभासी प्रोग्रामिंग है! www.brampton.ca/recreation पर रेक एट होम प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्राप्त करें।

ब्रैम्पटन लाइब्रेरी

कोविड-19 को फैलने से रोकने में मदद के लिए, ब्रैम्पटन लाइब्रेरी (Brampton Library) की सभी ब्रांचें, अगले नोटिस तक बंद कर दी गई हैं। हमारे मुफ्त डिजिटल कलेक्शंस के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.bramptonlibrary.ca पर जाएं या info@bramlib.on.ca पर ईमेल करें।

ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज

ब्रैम्पटन एनिमल शेल्टर (Brampton Animal Shelter), कैनेडा डे को बंद रहेगा।

एनिमल कंट्रोल (Animal Control), सोमवार से शुक्रवार, सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक और शनिवार तथा रविवार और छुट्टियों वाले दिनों को, सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक चालू रहेगा। वे केवल नीचे दिए कामों से संबंधित कॉल्स का ही जवाब देंगे:

- बीमार/ज़ख्मी/हिंसक घरेलू जानवर या जंगली जानवर का पिक अप
- हिंसक जानवर
- घर से बाहर निकले कुत्ते को बचाना
- कुत्ते के काटने की जांच
- बांधकर रखे आवारा कुत्तों का पिक अप
- मरे हुए जानवरों का पिक अप

इन घंटों के बाद, एनिमल कंट्रोल केवल एमरजेंसी कॉल्स का ही जवाब देगा।

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca